



### सिटी, 1 मार्च से शुरू करते हुए ब्रैम्पटन के रेक्रिएशन सेंटर्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स स्थानों पर, वैक्सीनेशन के प्रमाण की जरूरतों और कैपेसिटी सीमाओं को खत्म कर रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 मार्च, 2022) – 1 मार्च से, वैक्सीनेशन के प्रमाण की जरूरत नहीं है और ब्रैम्पटन रेक्रिएशन सेंटर्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स स्थानों पर, बाकी कैपेसिटी सीमाएं खत्म की जा रही हैं। इन उपायों में, ओनटैरियो सरकार की [14 फरवरी \(February 14\)](#) की घोषणा और पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) के निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

ब्रैम्पटन रेक्रिएशन सेंटर्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स स्थानों में जाने वाले व्यक्तियों के लिए, अभी भी इनडोर जगहों पर गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना और शारीरिक दूरी रखना जरूरी होगा। निवासियों को, सिटी की फैसिलिटीज में प्रवेश करने से पहले, कोविड-19 (COVID-19) के लक्षणों के लिए सेल्फ-स्क्रीन करने और यदि ठीक न हों तो घर में ही रहने के लिए कहा जा रहा है।

#### रेक्रिएशन

रेक्रिएशन सेंटर, रजिस्टर्ड और ड्रॉप-इन प्रोग्रामिंग के लिए खुले हैं। रेक्रिएशन सेंटर्स में आने के लिए पूर्व-रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, हालांकि, यह सलाह दी जाती है कि आगंतुक (विजिटर), आने से पहले, एडवांस में ही ऑनलाइन अपनी सेवाएं खरीद लें क्योंकि सभी सेवाएं पहले आएंगे, पहले पाएंगे के आधार पर उपलब्ध हैं। उपलब्ध प्रोग्रामों की जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/registerforprograms](http://www.brampton.ca/registerforprograms) पर जाएं और 311 पर फोन करके या सिटी के रेक्रिएशन सेंटर में जाकर रजिस्टर करें।

#### परफॉर्मिंग आर्ट्स स्थान

द रोज़ (The Rose) सहित, परफॉर्मिंग आर्ट्स स्थान, 1 मार्च, 2022 को पूरी कैपेसिटी से दुबारा खुल रहे हैं। [www.therosebrampton.ca](http://www.therosebrampton.ca) पर टिकटें खरीदें तथा अधिक जानकारी प्राप्त करें।

#### **मास्क**

निवासियों को याद दिलाया जाता है कि सिटी ने अपने ब्रैम्पटन कोविड-19 आवश्यक चेहरा ढकना बाइ-लॉ (Brampton COVID-19 Mandatory Face Mask By-law) को, सिटी की सभी फैसिलिटीज के लिए आगे बढ़ा दिया है।

कोविड-19 संबंधी आवश्यक चेहरा ढकना बाइ-लॉ के अंतर्गत, ब्रैम्पटन में सभी इनडोर जगहों पर गैर-मेडिकल मास्क पहनना जरूरी है। स्कार्फ, बंदनस, नेक गेटर्स या नेक वार्मर्स और एक्सलेशन वाल्वस वाले मास्क, चेहरा ढकने के स्वीकार्य रूप नहीं हैं। इसके अलावा बाइ-लॉ के अंतर्गत, मास्कों को खानपान के लिए केवल तब ही हटाया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति उस उद्देश्य के लिए नियत क्षेत्र में बैठा हो।



सिटी, कोविड-19 को फैलने से रोकने हेतु मदद करने के लिए, शारीरिक दूरी रखने, अच्छी तरह सफाई रखने और मास्क पहनने जैसे उपायों को अपनाना जारी रखने के लिए निवासियों का धन्यवाद करती है।

-30-

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)